



**Adv. No. 6/2016 Cat No. 37 Agriculture Inspector (Soil Conservation),
Agriculture Department Haryana
Morning Session**

Q1. निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइयें।

आंख

A. चक्षु

B. तनय

C. रैन

D. निरधी

Q2. निम्न शब्द का विपरीत (विलोम) अर्थ बताइयें।

अज्ञान

A. रोशनी

B. ज्ञान

C. अंधकार

D. विरोध

Q3. नीचे लिखे मुहावरे का उचित अर्थ बतायें।

फूल झड़ना

A. सारे फूल सूख जाना

B. मधुर वचन बोलना

C. बाग उजड जाना

D. फूल बेचना

Q4. नीचे लिखे गये शब्द का एकवचन बनायें।

राशियाँ

A. राशी

B. राशि

C. राषि

D. राश्री

Q5. नीचे लिखे गये शब्द का बहुवचन बनायें।

छात्र

A. छात्रगण

B. छात्रों

C. छात्रा

D. छात्राएं



**Adv. No. 6/2016 Cat No. 37 Agriculture Inspector (Soil Conservation),
Agriculture Department Haryana
Morning Session**

Q6. _____ is the synonym of "grim".

- A. Dirt
B. Bleak
C. Bright
D. Cheerful

Q7. The antonym of "murky" is _____.

- A. slushy
B. muddy
C. dark
D. clear

Q8. Identify the meaning of the idiom -

"To bid adieu."

- A. To welcome a friend
B. To say good-bye to someone or something
C. To work together on something
D. To offer something to a friend

Q9. The sentence given below contains one or more mistakes. Identify the correct sentence.

"The first Harry Potter book came 20 years since."

- A. The first Harry Potter book was released 20 years ago.
B. Harry Potter's first book was released 20 years back.
C. The Harry Potter first book came out 20 years back.
D. The first Harry Potter book released since 20 years ago.

Q10. Complete the sentence by choosing the correct form of the verb given in brackets.

The teacher was not _____ (hope) of Sushil's success.

- A. hoping
B. unhope
C. hopeful
D. believing

Q11. Find the sum of 0.75, 10.425, 2.

- A. 13.125
B. 12.125
C. 12.225
D. 13.175

Q11. 0.75, 10.425, 2 का योगफल ज्ञात कीजिए।

- A. 13.125
B. 12.125
C. 12.225
D. 13.175



**Adv. No. 6/2016 Cat No. 37 Agriculture Inspector (Soil Conservation),
Agriculture Department Haryana
Morning Session**

Q12. In a textile shop, 40% of the workers are men. If the number of men working in the textile shop is 100, find the total number of employees in the shop.

- A. 60
B. 150
C. 250
D. 350

Q12. कपड़ों की एक दुकान में 40% कामगार पुरुष हैं। यदि कपड़ों की दुकान में कार्य करने वाले पुरुषों की संख्या 100 हैं, तो दुकान में कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात करें।

- A. 60
B. 150
C. 250
D. 350

Q13. Tina rolled a single die. What is the probability of the die landing in an even number?

- A. 1/3
B. 1/2
C. 1/4
D. 1/6

Q13. टीना एक पांसा फेंकती है। एक सम संख्या आने की क्या संभाव्यता है?

- A. 1/3
B. 1/2
C. 1/4
D. 1/6

Q14. Suma bought a dress for INR 950 and sold it at 12% profit. She used this money to buy a pressure cooker and sold it at 5% loss. What was the overall profit amount that Suma earned?

- A. INR 58
B. INR 60.80
C. INR 49.60
D. INR 48

Q14. सूमा ने 950 रुपये में एक पोशाक खरीदी और उसे 12% लाभ पर बेच दिया। उसने यह रकम एक प्रेशर कुकर खरीदने के लिए इस्तेमाल किया और उसे 5% हानि पर बेच दिया। सूमा ने कुल कितना लाभ अर्जित किया?

- A. 58 रुपये
B. 60.80 रुपये
C. 49.60 रुपये
D. 48 रुपये

Q15. If a:b = 5:9 and b:c = 4:7, find the ratio of a:b:c.

- A. 5:(9/4):7
B. 20:36:28
C. 20:36:63
D. 5:9:7



**Adv. No. 6/2016 Cat No. 37 Agriculture Inspector (Soil Conservation),
Agriculture Department Haryana
Morning Session**

Q15. यदि $a:b = 5:9$ और $b:c = 4:7$ है तो $a:b:c$ का अनुपात ज्ञात करें।

A. $5:(9/4):7$

B. $20:36:28$

C. $20:36:63$

D. $5:9:7$

Q16. Pick the ODD one out:

Brain, Hand, Eyes, Ears, Legs

A. Brain

B. Eyes

C. Ears

D. Hand

Q16. असंगत ज्ञात करें।

मस्तिष्क, हाथ, आँख, कान, पैर

A. मस्तिष्क

B. आँख

C. कान

D. हाथ

Q17. Pick the ODD one out:

Shoe : Leather;

Jewelry : Gold;

Iron : Axe;

Table : Wood

A. Shoe : Leather

B. Jewelry : Gold

C. Iron : Axe

D. Table : Wood

Q17. असंगत ज्ञात करें।

जूता : चमड़ा,

जेवरात : सोना,

लोहा : कुल्हाड़ी,

मेज : लकड़ी

A. जूता : चमड़ा

B. जेवरात : सोना

C. लोहा : कुल्हाड़ी

D. मेज : लकड़ी



**Adv. No. 6/2016 Cat No. 37 Agriculture Inspector (Soil Conservation),
Agriculture Department Haryana
Morning Session**

Q18. Find the missing term:

Architect : Building :: Sculptor : ?

- A. Museum **B. Statue**
C. Chisel D. Stone

Q18. लुप्त पद ज्ञात करें।

वास्तुकार : भवन :: शिल्पकार : ?

- A. संग्रहालय **B. प्रतिमा**
C. छैनी D. पत्थर

Q19. Look at this series: 14, 28, 20, 40, 32, 64, _____.

What number should come next?

- A. 52 **B. 56**
C. 96 D. 128

Q19. अंकमाला को देखिये: 14, 28, 20, 40, 32, 64, _____.

आगे कौन सा अंक आना चाहिए?

- A. 52 **B. 56**
C. 96 D. 128

Q20. Q's mother is the sister of P and daughter of M. S is the daughter of P and sister of T. How is M related to T?

- A. Mother B. Grandmother
C. Grandfather **D. Grandparents**

Q20. Q की मां P की बहन और M की बेटी है। S, P की बेटी और T की बहन है। M का T के बीच क्या संबंध है?

- A. मां B. दादी
C. दादा **D. दादा-दादी या नाना-नानी**

Q21. If FRIEND is coded as HUMJTK, how is CANDLE written in that code?

- A. EDRIRL** B. DCQHQB
C. ESJFME D. FYBOC



**Adv. No. 6/2016 Cat No. 37 Agriculture Inspector (Soil Conservation),
Agriculture Department Haryana
Morning Session**

Q21. यदि FRIEND को HUMJTK के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उस कूट में CANDLE को कैसे लिखा जाएगा?

A. EDRIRL

B. DCQHQQ


C. ESJFME

D. FYOBOC

Q22. Find the missing element in the figure to complete the series.



Q22. लुप्त आकृति ज्ञात करके क्रम को पूरा करें।



Q23. Which of the following does not conduct electricity?

A. Copper

B. Aluminium

C. Glass

D. Gold



**Adv. No. 6/2016 Cat No. 37 Agriculture Inspector (Soil Conservation),
Agriculture Department Haryana
Morning Session**

Q23. निम्नलिखित कौन सा बिजली का चालन नहीं करता है?

- A. तांबा
B. अलुमिनियम
C. कांच
D. सोना

Q24. Lightning is an example of _____.

- A. Kinetic force
B. Mechanical force
C. Magnetic force
D. Electrostatic force

Q24. तड़ित _____ का उदाहरण है।

- A. गतिक ऊर्जा
B. यांत्रिक ऊर्जा
C. चुम्बकीय ऊर्जा
D. वैद्युतस्थैतिक ऊर्जा

Q25. The thin metallic wire used in an electric bulb as filament is made of _____.

- A. Copper
B. Silver
C. Tungsten
D. Nichrome

Q25. बिजली के बल्ब में फिलामेंट के रूप में इस्तेमाल होने वाली पतली धात्विक तार _____ से बनी होती है।

- A. तांबा
B. चांदी
C. टंगस्टन
D. निक्रोम

Q26. When white light is passed through a _____, it is dispersed into its seven-colour components.

- A. Glass
B. Air
C. Water
D. Prism

Q26. जब प्रकाश _____ से गुजरता है तब यह सात रंगों के संघटकों में छिन्न-भिन्न हो जाता है।

- A. कांच
B. वायु
C. जल
D. प्रिज़्म

Q27. How many blocks are there in the modern periodic table?

- A. 4
B. 6
C. 7
D. 18



**Adv. No. 6/2016 Cat No. 37 Agriculture Inspector (Soil Conservation),
Agriculture Department Haryana
Morning Session**

Q27. आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ब्लाक हैं?

- A. 4
B. 6
C. 7
D. 18

Q28. Acids have a pH value that is _____.

- A. Greater than 7
B. Greater than 9
C. Less than 7
D. Less than or equal to 5

Q28. अम्लों का पी एच मान _____ होता है।

- A. 7 से अधिक
B. 9 से अधिक
C. 7 से कम
D. 5 से कम या इसके बराबर

Q29. _____ is composed of carbon, hydrogen, and hydroxide.

- A. Shampoo
B. Liquid soap
C. Glycerine
D. Sucrose

Q29. _____ कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्साइड से बनता है।

- A. शैम्पू
B. तरल साबुन
C. ग्लिसरीन
D. इक्षुशर्करा

Q30. Which blood group is referred as universal donor?

- A. A+
B. AB+
C. O-
D. AB-

Q30. किस ब्लड ग्रुप को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है?

- A. A+
B. AB+
C. O-
D. AB-

Q31. Which was the Capital of Samrat Ashoka's empire?

- A. Taxila
B. Pataliputra
C. Ujjain
D. Kannauj



**Adv. No. 6/2016 Cat No. 37 Agriculture Inspector (Soil Conservation),
Agriculture Department Haryana
Morning Session**

Q31. सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी का क्या नाम था?

- A. तक्षशिला
B. पाटलिपुत्र
C. उज्जैन
D. कन्नौज

Q32. The original name of Swamy Vivekananda was _____.

- A. Dewan
B. Amitava Bhattacharya
C. Nikhilanandha
D. Narendranath Datta

Q32. स्वामी विवेकानंद का मूल नाम _____ था।

- A. दीवान
B. अमितवा भट्टाचार्य
C. निखिलानंद
D. नरेन्द्रनाथ दत्ता

Q33. The new GST has been introduced by the Government with effect from _____.

- A. 1st July 2017
B. 1st April 2017
C. 1st June 2017
D. 1st January 2017

Q33. सरकार द्वारा नया जी.एस.टी. _____ से लागू किया गया है।

- A. 1 जुलाई 2017
B. 1 अप्रैल 2017
C. 1 जून 2017
D. 1 जनवरी 2017

Q34. The Union Sports minister is _____.

- A. Radha Mohan Singh
B. Rajvardhan Rathod
C. Vijay Goel
D. Narendra Singh Tomar

Q34. _____ केन्द्रीय खेल मंत्री हैं।

- A. श्री राधा मोहन सिंह
B. श्री राजवर्धन राठौड़
C. श्री विजय गोयल
D. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर

Q35. Nasira Sharma won the _____ award for 2016, for her novel 'Parijath'.

- A. Jnanpith
B. Sahitya Akademi
C. Magsaysay
D. Booker



**Adv. No. 6/2016 Cat No. 37 Agriculture Inspector (Soil Conservation),
Agriculture Department Haryana
Morning Session**

Q35. नसीरा शर्मा ने अपने उपन्यास 'पारिजात' के लिए 2016 का _____ पुरस्कार जीता था।

- A. ज्ञानपीठ
B. साहित्य अकादमी
C. मैगसेसे
D. बुकर

Q36. _____ was the author of "The Hindu view of Life".

- A. R. Venkataraman
B. Sarvepalli Radhakrishnan
C. Sanjeeva Reddy
D. Narasimha Rao

Q36. _____ "The Hindu view of Life" के लेखक थे।

- A. आर वेंकटरमण
B. सर्वपल्ली राधाकृष्णन
C. संजीव रेड्डी
D. नरसिम्हा राव

Q37. The _____ Strait divides India & Sri Lanka.

- A. Malacca
B. Sunda
C. Palk
D. Bass

Q37. _____ जलडमरूमध्य भारत और श्री लंका को अलग करता है।

- A. मैलक्का
B. सुंदा
C. पाक
D. बास

Q38. How many spokes are there in the Ashoka Chakra, in the centre of the Indian National flag?

- A. 12
B. 18
C. 32
D. 24

Q38. भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केन्द्र में अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं?

- A. 12
B. 18
C. 32
D. 24

Q39. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is a _____ scheme of the Government of India.

- A. Crop Insurance
B. Skill development
C. Job assurance
D. Life Insurance



**Adv. No. 6/2016 Cat No. 37 Agriculture Inspector (Soil Conservation),
Agriculture Department Haryana
Morning Session**

Q39. प्रधान मंत्री फसल बीमा, भारत सरकार की एक _____ योजना है।

- A. फसल बीमा
B. कौशल विकास
C. कार्य आश्वासन
D. जीवन बीमा

Q40. _____ won the Dada Saheb Phalke award for 2016.

- A. Manoj Kumar
B. Kasinathuni Viswanath
C. Shashi Kapoor
D. Gulzar

Q40. _____ ने 2016 का दादा साहिब फाल्के पुरस्कार जीता था।

- A. मनोज कुमार
B. कासीनथुनी विश्वनाथ
C. शशि कपूर
D. गुलजार

Q41. The second Battle of Panipat was fought between?

- A. Babur and Ibrahim Lodi
B. Akbar and Hemu
C. Humayun and Ibrahim Lodi
D. Timur and Hemu

Q41. पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी?

- A. बाबर और इब्राहिम लोदी
B. अकबर और हेमू
C. हुमायूँ और इब्राहिम लोदी
D. तिमुर और हेमू

Q42. Haryana finds mention in the epic _____.

- A. Ramayana
B. Geethanjali
C. Mahabharata
D. Sakuntala

Q42. हरियाणा का _____ महाकाव्य में उल्लेख किया गया है।

- A. रामायण
B. गीतांजलि
C. महाभारत
D. शकुंतला

Q43. It is believed that _____ worshipped their ancestors at Pandu Pindara.

- A. Kaurava
B. Chalukya
C. Yadava
D. Pandava



**Adv. No. 6/2016 Cat No. 37 Agriculture Inspector (Soil Conservation),
Agriculture Department Haryana
Morning Session**

Q43. यह माना जाता है कि पाण्डू पिंडारा में _____ ने अपने पूर्वजों की पूजा-अर्चना की थी।

- A. कौरव
B. चालुक्य
C. यादव
D. पाण्डव

Q44. The Tomb of Gulam ruler Rajia Sultana is situated in _____ district.

- A. Pind
B. Kaithal
C. Rewari
D. Mewat

Q44. गुलाम वंश की शासक रजिया सुल्ताना का मकबरा _____ जिले में स्थित है।

- A. पिंड
B. कैथल
C. रेवाड़ी
D. मेवात

Q45. _____ won the National award for movie 'Rustom'.

- A. Salman Khan
B. Aamir Khan
C. Akshay Kumar
D. Ajay Devgan

Q45. _____ ने 'रुस्तम' फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था।

- A. सलमान खान
B. अमीर खान
C. अक्षय कुमार
D. अजय देवगन

Q46. Tirath Darshan scheme in Haryana is for _____.

- A. Senior citizen
B. Destitute women
C. Unemployed youth
D. Ex-servicemen

Q46. हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना _____ के लिए है।

- A. वरिष्ठ नागरिक
B. निराश्रित महिला
C. बेरोजगार युवा
D. पूर्व सैनिक

Q47. Sakshi Malik won the _____ medal in the Rio Olympics 2016.

- A. Bronze
B. Gold
C. Silver
D. Platinum



**Adv. No. 6/2016 Cat No. 37 Agriculture Inspector (Soil Conservation),
Agriculture Department Haryana
Morning Session**

Q47. साक्षी मलिक ने रियो ओलम्पिक 2016 में _____ पदक जीता था।

- A. कांस्य B. स्वर्ण
C. रजत D. प्लेटिनम

Q48. _____ is the busiest Indian railway station in Haryana in terms of frequency of trains.

- A. Ambala Cantonment Railway Station B. Chandimandir Cantonment
C. Bahadurgarh D. Bhiwani

Q48. ट्रेन की आवृत्ति के मामले में _____ हरियाणा का सबसे व्यस्त भारतीय रेलवे स्टेशन है

- A. अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन B. चंडीमंदिर छावनी
C. बहादुरगढ़ D. भिवानी

Q49. Raghuvamsa and Kumara Sambhava were works of _____.

- A. Chanakya B. Kalidasa
C. Tulsidas D. Valmiki

Q49. रघुवंश और कुमार संभव _____ की कृतियां हैं।

- A. चाणक्य B. कालीदास
C. तुलसीदास D. वाल्मीकि

Q50. Pandit Neki Ram was nick named _____.

- A. Bhakti Kesari B. Swarna Kesari
C. Punjab Kesari D. Haryana Kesari

Q50. पंडित नेकी राम को _____ उपनाम प्रदान किया गया है।

- A. भक्ति केसरी B. स्वर्ण केसरी
C. पंजाब केसरी D. हरियाणा केसरी

Q51. "Yuddha Charita" was written by _____.

- A. Khushiram Sharma B. Uday Banu Hans
C. Anupam Aftab D. Leeladar Dukhi



**Adv. No. 6/2016 Cat No. 37 Agriculture Inspector (Soil Conservation),
Agriculture Department Haryana
Morning Session**

Q51. "युद्ध चरित" _____ द्वारा लिखी गई है।

- A. खुशीराम शर्मा
B. उदय बानू हंस
C. अनुपम आफताब
D. लीलाधर दुखी

Q52. _____ published a weekly magazine 'Sandesh' from Bhiwani.

- A. Radhakrishna Mishra
B. Balmukund Gupta
C. Madhav Prasad Mishra
D. Pandit Neki Ram Sharma

Q52. _____ ने भिवानी से एक साप्ताहिक पत्रिका 'संदेश' प्रकाशित की थी।

- A. राधाकृष्ण मिश्रा
B. बालमुकुंद गुप्ता
C. माधव प्रसाद मिश्रा
D. पंडित नेकी राम शर्मा

Q53. Which district in Haryana has the least forest cover?

- A. Fatehabad
B. Faridabad
C. Palwal
D. Bhiwani

Q53. हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन आवरण है?

- A. फतेहाबाद
B. फरीदाबाद
C. पलवल
D. भिवानी

Q54. River Yamuna forms the _____ border between Haryana & Uttar Pradesh.

- A. Western
B. Northern
C. Eastern
D. Southern

Q54. यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच _____ सीमा है।

- A. पश्चिमी
B. उत्तरी
C. पूर्वी
D. दक्षिणी

Q55. The centre for cotton trade in Haryana state is _____.

- A. Palwal
B. Rohtak
C. Sirsa
D. Hisar



**Adv. No. 6/2016 Cat No. 37 Agriculture Inspector (Soil Conservation),
Agriculture Department Haryana
Morning Session**

Q55. हरियाणा राज्य में _____ कपास व्यापार का केन्द्र है।

- A. पलवल
B. रोहतक
C. सिरसा
D. हिसार

Q56. Haryana state is divided into 4 Mandals or divisions. Which one is not a Mandal?

- A. Rohtak
B. Gurugram
C. Karnal
D. Hisar

Q56. हरियाणा राज्य 4 मंडलों में बंटा है। निम्न लिखित कौन सा मंडल नहीं है?

- A. रोहतक
B. गुरुग्राम
C. करनाल
D. हिसार

Q57. Which among the passenger car manufacturing company is located in Gurugram?

- A. Maruti
B. Hyundai
C. Volkswagan
D. Fiat

Q57. निम्न लिखित कौन सी कार निर्माण कंपनी गुरुग्राम में स्थित है?

- A. मारुति
B. हुंडई
C. वोक्सवैगन
D. फिएट

Q58. Shori market in Rohtak is Asia's second largest _____ market.

- A. Cloth
B. Jute
C. Grain
D. Auto spares

Q58. रोहतक में शोरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा _____ बाजार है।

- A. कपड़ा
B. सन
C. अनाज
D. वाहन पुर्जा

Q59. _____ is known as the 'City of Weavers'

- A. Sonapat
B. Panipat
C. Palwal
D. Ambala



**Adv. No. 6/2016 Cat No. 37 Agriculture Inspector (Soil Conservation),
Agriculture Department Haryana
Morning Session**

Q59. _____ 'बुनकरोँ का नगर' कहलाता है।

- A. सोनीपत
B. पानीपत
C. पलवल
D. अंबाला

Q60. Karnal is believed to be founded by King _____.

- A. Duruyodhana
B. Yudhishtira
C. Karna
D. Shakuni

Q60. माना जाता है कि करनाल की स्थापना राजा _____ द्वारा की गई थी।

- A. दुर्योधन
B. युधिष्ठिर
C. कर्ण
D. शकुनि

Q61. Minister of External Affairs, Ms. Sushma Swaraj hails from _____.

- A. Karnal
B. Rohtak
C. Faridabad
D. Ambala

Q61. विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज _____ से हैं।

- A. करनाल
B. रोहतक
C. फरीदाबाद
D. अंबाला

Q62. _____ district is known as "Choti Kashi".

- A. Kaithal
B. Gurugram
C. Hisar
D. Rohtak

Q62. _____ जिला "छोटी काशी" कहलाता है।

- A. कैथल
B. गुरुग्राम
C. हिसार
D. रोहतक

Q63. Lohri is a festival celebrated in the month of?

- A. October
B. January
C. March
D. August



**Adv. No. 6/2016 Cat No. 37 Agriculture Inspector (Soil Conservation),
Agriculture Department Haryana
Morning Session**

Q63. लोहड़ी त्योहार किस महीने में मनाया जाता है?

- A. अक्टूबर
B. जनवरी
C. मार्च
D. अगस्त

Q64. Which dance form is performed by both men & women?

- A. Daph
B. Loor
C. Gugga
D. Jhumar

Q64. किस नृत्य विधा को पुरुषों और महिलाओं, दोनों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है?

- A. डाफ
B. लूर
C. गुग्गा
D. झूमर

Q65. Sthaneswar Mahadev temple is situated in _____

- A. Thanesar
B. Narnaul
C. Yamunanagar
D. Sonapat

Q65. स्थानेश्वर महादेव मंदिर _____ में स्थित है।

- A. थानेसर
B. नारनौल
C. यमुनानगर
D. सोनीपत

Q66. Identify the component of soil that determines fertility of the soil.

- A. Water
B. Air
C. Silt
D. Humus

Q66. मिट्टी के प्रजनन क्षमता को निर्धारित करने वाली मिट्टी के घटक की पहचान करें.

- A. पानी
B. वायु
C. गाद
D. धरण

Q67. Study of soil is called

- A. Pedology
B. Soil genesis
C. Anthropology
D. Geology



**Adv. No. 6/2016 Cat No. 37 Agriculture Inspector (Soil Conservation),
Agriculture Department Haryana
Morning Session**

Q67. मिट्टी का अध्ययन को क्या कहा जाता है

- A. मिट्टी-संबंधी विद्या
B. मृदा उत्पत्ति
C. मनुष्य जाति का विज्ञान
D. भूगर्भशास्त्र

Q68. Which of the following organism is not a soil flora?

- A. Bacteria
B. Fungi
C. Yeast
D. Nematodes

Q68. निम्नलिखित जीव में से कौन सा मिट्टी वनस्पति नहीं है?

- A. जीवाणु
B. कवक
C. खमीर
D. नेमाटोड

Q69. Which of the following methods is a common method of liquid fertilizer application?

- A. Broadcasting
B. Placement
C. Band placement
D. Foliar application

Q69. निम्नलिखित में से कौन सी तरल उर्वरक आवेदन की एक सामान्य विधि है?

- A. प्रसारण
B. प्लेसमेंट
C. बैंड प्लेसमेंट
D. पत्ते का आवेदन

Q70. Which of the following types of band placement is suitable for fertilizer application in orchards?

- A. Hill placement
B. Pellet application
C. Starter solution
D. Row placement

Q70. निम्नलिखित के बैंड प्लेसमेंट ऑर्ड में उर्वरक आवेदन के लिए उपयुक्त हैं?

- A. हिल प्लेसमेंट
B. गोली आवेदन
C. स्टार्टर समाधान
D. रो प्लेसमेंट

Q71. The term used for supply of water to crops at different intervals is,

- A. Irrigation
B. Crop production
C. Farming
D. Agriculture



**Adv. No. 6/2016 Cat No. 37 Agriculture Inspector (Soil Conservation),
Agriculture Department Haryana
Morning Session**

Q71. विभिन्न अंतरालों पर फसलों को पानी की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है।

- A. सिंचाई
B. फसल उत्पाद
C. खेती
D. कृषि

Q72. Which of the following is the primary source of water for irrigation?

- A. Rainfall
B. Canals
C. Wells
D. Dams

Q72. सिंचाई के लिए पानी का प्राथमिक स्रोत निम्न में से कौन सा है?

- A. वर्षा
B. नहरें
C. वेल्स
D. बांधों

Q73. The system of irrigation wherein water is supplied drop by drop near the roots of plants, is called _____.

- A. Pulley system
B. Sprinklers
C. Drip
D. Surface

Q73. सिंचाई की व्यवस्था जहां पानी में आपूर्ति पौधों की जड़ों के पास बूँद बूँद से की जाती है, इसे _____ कहा जाता है

- A. गरारी प्रणाली
B. स्प्रिंकलर
C. टपक
D. सतह

Q74. Which of these is NOT an advantage of using micro-irrigation?

- A. water conservation
B. energy efficient
C. labour intensive
D. less weed problems

Q74. इनमें से कौन सा सूक्ष्म सिंचाई (माइक्रो इरीगेशन) का उपयोग करने का लाभ नहीं है?

- A. जल संरक्षण
B. ऊर्जा से भरपूर
C. श्रम घनिष्ठ
D. कम खरपतवार समस्याओं

Q75. Which of the following chemicals is used to control the growth of weeds?

- A. Herbicide
B. Germicide
C. Pesticide
D. Insecticide



**Adv. No. 6/2016 Cat No. 37 Agriculture Inspector (Soil Conservation),
Agriculture Department Haryana
Morning Session**

Q75. निम्न में से किस रसायन का उपयोग वनों के विकास को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है?

- A. शाक
B. अंकुर का नष्ट करने की शक्ति से युक्त
C. कीटनाशक (पेस्टिसाइड)
D. कीटनाशक (इंसेक्टिसाइड)

Q76. Which of the following herbicides is used to destroy deep rooted perennials?

- A. Soil sterilant
B. Contact herbicide
C. Systemic herbicide
D. Selective herbicide

Q76. निम्नलिखित जड़ी बूटियों (हर्बासाइंस) में से कौन सा गहरे जड़े बारहमासी को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है?

- A. मिट्टी अवरक्त
B. हर्बासाइंस से संपर्क करें
C. सिस्टमिक हर्बासाइंस
D. चुनिंदा जड़ी बूटी

Q77. _____ crops are grown in the rainy season.

- A. Kharif
B. Rabi
C. Zaid
D. Cash

Q77. बरसात के मौसम में _____ फसलें उगाई जाती हैं

- A. खरीफ
B. रबी
C. ज़ैद
D. कैश

Q78. Rabi crops are grown in _____ season.

- A. Summer
B. Winter
C. Rainy
D. Dry

Q78. रबी फसलें _____ सीजन में उगाई जाती हैं।

- A. गर्मी
B. सर्दी
C. बरसाती
D. सूखा

Q79. When wheat seeds are sown in kharif season, the seeds will?

- A. Germinate slowly
B. Germinate quickly
C. Not germinate at all
D. Germinate normally



**Adv. No. 6/2016 Cat No. 37 Agriculture Inspector (Soil Conservation),
Agriculture Department Haryana
Morning Session**

Q79. जब खरीफ सीजन में गेहूं के बीज बोए जाते हैं, तो बीज में?

- A. धीरे धीरे अंकुरित करें
B. जल्दी से अंकुरित करें
C. बिल्कुल अंकुरित नहीं है
D. सामान्य रूप से अंकुरित

Q80. During an anticyclone, the wind swirl blows _____ in the Southern Hemisphere.

- A. Alternating between clockwise and counter clockwise
B. Starts counter clockwise and ends clockwise
C. Clockwise
D. Counter clockwise

Q80. एक विकिरण (एंटीसीक्लोन) के दौरान, दक्षिणी गोलार्ध में हवा घूमती उड़ती _____

- A. घड़ी की दिशा में और दक्षिणावर्त काउंटर के बीच बदलना
B. दक्षिणावर्त काउंटर की ओर से शुरू होता है और दक्षिणावर्त समाप्त होता है
C. दक्षिणावर्त
D. काउंटर की घड़ी की दिशा

Q81. A field bank is also known as _____.

- A. Seed bank
B. DNA bank
C. Plant bank
D. Cell bank

Q81. एक क्षेत्रीय बैंक को _____ के रूप में भी जाना जाता है।

- A. बीज बैंक
B. डीएनए बैंक
C. संयंत्र बैंक
D. सेल बैंक

Q82. Ex situ germplasm conservation is achieved in _____ ways.

- A. One
B. Two
C. Five
D. Six

Q82. एक्स सीटू जर्मप्लाज्म संरक्षण _____ तरीके से हासिल किया जाता है।

- A. एक
B. दो
C. पाँच
D. छह



**Adv. No. 6/2016 Cat No. 37 Agriculture Inspector (Soil Conservation),
Agriculture Department Haryana
Morning Session**

Q83. Sonalika and Kalyan Sona are high-yielding and disease resistant _____ varieties.

- A. Rice
B. Wheat
C. Maize
D. Ragi

Q83. सोनालिका और कल्याण सोना उच्च उपज और रोग प्रतिरोधी _____ किस्में हैं।

- A. चावल
B. गेहूँ
C. मक्का
D. रागी

Q84. Match the following and mark the correct option.

	Column I		Column II
A	Mule	I	Semi-dwarf rice variety
B	Spirulina	II	Poor sugar content
C	Jaya and Ratna	III	Interspecific hybrid mammal
D	Saccharumbarberi	IV	Single Cell Protein

- A. A-II, B-I, C-III, D-IV
B. A-III, B-IV, C-I, D-II
C. A-I, B-IV, C-II, D- III
D. A-IV, B-III, C-I, D-II

Q84. निम्नलिखित शब्दों का मिलान करें और सही विकल्प को चिह्नित करें

	Column I		Column II
A	खच्चर	I	अर्ध-बौना चावल की प्रकार
B	स्फिरुलिना	II	गरीब चीनी की मात्रा
C	जया और रत्न	III	इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड स्तनपायी प्राणी
D	सच्चरमबरबेरी	IV	एक सेल प्रोटीन

- A. A-II, B-I, C-III, D-IV
B. A-III, B-IV, C-I, D-II
C. A-I, B-IV, C-II, D- III
D. A-IV, B-III, C-I, D-II

Q85. _____ induces shoot formation.

- A. Auxin
B. Cytokinin
C. Florigen
D. Vernalin



**Adv. No. 6/2016 Cat No. 37 Agriculture Inspector (Soil Conservation),
Agriculture Department Haryana
Morning Session**

Q85. _____ शूट फॉर्मेशन को प्रेरित करता है।

- A. ऑक्सिन
B. साइटोकिनिन
C. फ्लोरीजेन
D. वेरनालिन

Q86. Which of the following operations generates suitable conditions for growth of plants?

- A. Spraying
B. Pruning
C. Tilling
D. Planting

Q86. निम्न में से कौन से कार्य पौधों के विकास के लिए उपयुक्त स्थिति उत्पन्न करता है?

- A. छिड़काव
B. छंटाई
C. टिल्लिंग
D. रोपण

Q87. Which of the following implements is manually drawn?

- A. Brush cutter
B. Paddy thresher
C. Straw reaper
D. Castor sheller

Q87. निम्न में से कौन सा औजार मैन्युअल रूप से खींचा गया है?

- A. ब्रश कटर
B. धान थ्रेसर
C. पुआल का काटना
D. केस्टर शेलर

Q88. What is the use of a castor sheller?

- A. It harvests castor pods.
B. It helps to shell and clean castor pods.
C. It exposes the castor pods from the soil.
D. It cuts the castor pods.

Q88. एक अरंडी शेलर का क्या उपयोग है?

- A. यह एरियल फॉइस का उत्पादन करता है
B. यह खोल और साफ अरंडी फली में मदद करता है।
C. यह मिट्टी से अरंडी की फली उजागर करती है।
D. यह अरंडी फली में कटौती करता है

Q89. Which of the following implements is tractor drawn?

- A. Sickle
B. Winnowing fan
C. Axe
D. Castor sheller



**Adv. No. 6/2016 Cat No. 37 Agriculture Inspector (Soil Conservation),
Agriculture Department Haryana
Morning Session**

Q89. निम्नलिखित में से कौन सी उपकरण ट्रैक्टर से खींचा जाता है?

- A. दरांती
B. उखाड़ फेंक
C. कुल्हाड़ी
D. केस्टर शेल्स

Q90. Match the following implements with their functions.

Sr.No.	Implements	Sr.No	Functions
1.	Harrow	A.	To secure other implements with the help of a rope
2.	Plough	B.	To break the clods
3.	Yoke	C.	To break the crust of the soil after the rains
4.	Mallot	D.	To perform tilling

- A. 1-A, 2-B, 3-C, 4-D
B. 1-B, 2-C, 3-D, 4-A
C. 1-C, 2-D, 3-A, 4-B
D. 1-D, 2-A, 3-B, 4-C

Q90. निम्नलिखित शब्दों का मिलान करें और सही विकल्प को चिह्नित करें

क्रमांक	औजार	क्रमांक	कार्य
1	हेंगा	A.	रस्सी की मदद से अन्य औजारों को सुरक्षित करने के लिए
2	हल	B.	बादलों को तोड़ने के लिए
3	घोड़े का अंसबंध	C.	बारिश के बाद मृदा की परत को तोड़ने के लिए
4	मलोट	D.	तिलिंग करने के लिए

- A. 1-A, 2-B, 3-C, 4-D
B. 1-B, 2-C, 3-D, 4-A
C. 1-C, 2-D, 3-A, 4-B
D. 1-D, 2-A, 3-B, 4-C

Q91. Fermentation of birds excreta _____

- A. Occurs very quickly
B. Occurs very slowly
C. Does not occur
D. Occurs through artificial process

Q91. पक्षियों के मलमूत्र का किण्वन (फेरमेंटेशन)

- A. बहुत जल्दी से आता है
B. बहुत धीमा होता है
C. नहीं होता है
D. कृत्रिम प्रक्रिया के माध्यम से होता है



**Adv. No. 6/2016 Cat No. 37 Agriculture Inspector (Soil Conservation),
Agriculture Department Haryana
Morning Session**

Q92. What is an organic food?

A. A food that is the purest and most nutritious

B. A food grown or produced without chemical aid

C. A food that has low fat and no artificial preservatives

D. A food that is produced using synthetic pesticides

Q92. कार्बनिक (आर्गेनिक) भोजन क्या है?

A. एक खाना जो सबसे शुद्ध और सबसे पौष्टिक है

B. रासायनिक सहायता के बिना उगाया या उत्पादन किया हुआ भोजन

C. कम वसा वाला भोजन और कोई कृत्रिम परिरक्षकों नहीं

D. कृत्रिम कीटनाशकों का उपयोग करके तैयार किया जाने वाला भोजन

Q93. Which of the following manure does not belong to bulky organic manure group?

A. Oil cake

B. Sheep

C. Goat

D. Farmyard

Q93. निम्नलिखित में से कौन सा खाद भारी कार्बनिक खाद समूह से संबंधित नहीं है?

A. खली

B. भेड़

C. बकरा

D. खेत के पास का घेरा

Q94. Identify the method of manuring wherein urine and fecal matter of sheep and goats are added to the soil by incorporating them to a shallow depth.

A. Sheep Penning

B. Crop production

C. Farming

D. Agriculture

Q94. खाद डालने की विधि की पहचान करें जिसमें भेड़ और बकरी की मल और मूत्र मिट्टी के साथ बहुत गहराई तक मिलाया जाता है।

A. भेड़ पेंनिंग

B. फसल उत्पाद

C. खेती

D. कृषि



**Adv. No. 6/2016 Cat No. 37 Agriculture Inspector (Soil Conservation),
Agriculture Department Haryana
Morning Session**

Q95. Match the following and mark the correct option.

	Column I		Column II
A	Volatilization	I	High nitrogen
B	Chemical preservative	II	Neem
C	Non-edible oil cake	III	Urea
D	Poultry manure	IV	Gypsum

A. A-III, B-II, C-I, D-IV

B. A-II, B-IV, C-I, D-III

C. A-III, B-IV, C-II, D-I

D. A-IV, B-III, C-I, D-II

Q95. निम्नलिखित शब्दों का मिलान करें और सही विकल्प को चिह्नित करें

	Column I		Column II
A	औटना	I	उच्चनाइट्रोजन
B	रासायनिकपरिरक्षक	II	नीम
C	गैर-खाद्यतेलकेक	III	यूरिया
D	कुक्कुटखाद	IV	जिप्सम

A. A-III, B-II, C-I, D-IV

B. A-II, B-IV, C-I, D-III

C. A-III, B-IV, C-II, D-I

D. A-IV, B-III, C-I, D-II

Q96. Horticulture refers to _____

A. Growing of special varieties of wheat

B. Harvesting of rice

C. Growing of fruits and vegetables

D. Irrigating the land

Q96. बागवानी _____ को संदर्भित करता है

A. गेहूं की विशेष किस्मों की उपज

B. चावल की कटाई

C. फलों और सब्जियों की उपज

D. भूमि को बाधित करना

Q97. What does the Latin word 'Hortus' mean?

A. Garden

B. Plants

C. Aromatic plants

D. Fruits



**Adv. No. 6/2016 Cat No. 37 Agriculture Inspector (Soil Conservation),
Agriculture Department Haryana
Morning Session**

Q97. लैटिन शब्द 'हॉर्टस' का क्या अर्थ है?

- A. बगीचा
B. पौधे
C. सुगंधित पौधों
D. फल

Q98. What does the word 'Florus' mean?

- A. Garden
B. Flower
C. Forest
D. Park

Q98. 'फ्लोरस' शब्द का क्या अर्थ है?

- A. बगीचा
B. फूल
C. जंगल
D. पार्क

Q99. In hotter parts of India, _____ is considered as an alternative to root pruning.

- A. Staking
B. Clipping
C. Wintering
D. Deshooting

Q99. भारत के गर्म हिस्सों में, _____ को मूल की छंटाई के विकल्प के रूप में माना जाता है।

- A. जताया
B. कतरन
C. शीतकालीन (इंविटरिंग)
D. डेशूटिंग

Q100. APEDA stands for _____

- A. Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority
B. Agro and Processed Foods Export Development Ability
C. Agricultural Food Protection and Export Development Authority
D. Agro Food Protection Export Designing Act

Q100. APEDA का पूरा रूप _____ है

- A. Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority
B. Agro and Processed Foods Export Development Ability
C. Agricultural Food Protection and Export Development Authority
D. Agro Food Protection Export Designing Act